



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 549) पटना, बुधवार, 26 जून 2024

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश

20 जून 2024

का0आ0सं0-5 / आर0एल0-40-85 / 2018-3275 / श्र0सं0-बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के द्वारा द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 (वि0सं0-07070114) के परीक्षाफल के आधार पर चयनित एवं पत्रांक-बि0क0च0आ0-प्र0 03 / परीक्षा(स्ना0)-17 / 2017-3597 दिनांक 12.09.2023 द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (परिष्यमान) के पद पर वेतन स्तर-07 (44,900-1,42,400) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य देय भत्तों के साथ योगदान देने की तिथि से पूर्णतः औपबंधिक रूप से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-8 में अंकित प्रखण्ड/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	अनुक्रमांक	मेघा क्र0	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							प्रखण्ड	जिला
01	श्री पंकज कुमार	05.01.1991	107278	82	04	नालंदा	लखीसराय सदर	लखीसराय

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल पाए जाने पर की जा रही है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने- देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि सेवा में योगदान की तिथि से 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मेधा क्रम एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3/एम०-51/2015 सा०प्र०-2763, दिनांक 23.02.2016 के अनुसार होगी। अभ्यर्थी के लिए बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. बिहार पेंशन नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964, दिनांक-31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S.) लागू होगी।

7. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-2082, दि०-01.04.2003 के अनुपालन में अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम पन्द्रह दिन के अन्दर समर्पित करेंगे। पन्द्रह दिन के अन्दर योगदान नहीं करने पर अभ्यर्थी से साक्ष्य सहित अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

9. पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

10. योगदान करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा अथवा योगदान स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी को सीधे मुख्यालय से संपर्क करने का परामर्श दिया जाना आवश्यक होगा।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 549-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>